



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2008/माघ 19, 1929

No. 61]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2008/MAGHA 19, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 76(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) तथा नियम 7 के उप-नियम (सी) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र

1. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 132

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
मुख्य सचिव	1	—
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./आर.डब्ल्यू.डी.)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2
प्रभागीय आयुक्त (पूर्व)	1	2
प्रभागीय आयुक्त (पश्चिम)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (गृह)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	1	2
सचिव (उद्योग)	1	2
सचिव (आपूर्ति और परिवहन)	1	2
सचिव (सामान्य प्रशासन)	1	2
संयुक्त सचिव (राजनैतिक)	1	2
संयुक्त सचिव (पी. एण्ड डी.)	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2

1	2	3	1	2	3
राज्यपाल के सचिव	1	2	उप राज्यपाल के सचिव	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2	उपायुक्त (जिले)	2	2
आपूर्ति और परिवहन निदेशक	1	2	विकास उपायुक्त/विशेष सचिव	1	2
सिविल आपूर्ति निदेशक	1	2	चण्डीगढ़ सरकार के अधीन पद (कुल-5)		
उपायुक्त (जिले)	1	2	प्रशासक, चण्डीगढ़ के सलाहकार	1	—
गोवा सरकार के अधीन पद (कुल-13)			सचिव (गृह)	1	2
मुख्य सचिव	1	—	सचिव (वित्त)	1	2
प्रधान सचिव	1	2	उपायुक्त (जिले)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2	संयुक्त सचिव (वित्त)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और स्वास्थ्य)	1	2	दमन और दीव सरकार/दादरा और नागर हवेली प्रशासन के अधीन पद (कुल-5)		
राज्यपाल के सचिव	1	2	विकास आयुक्त	1	—
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2	वित्त सचिव	1	2
सरकार के सचिव	2	2	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (दमन, दीव/दादरा और नागर हवेली)	3	2
आयुक्त (बिक्री कर)	1	2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन पद (कुल-41)		
उद्योग और खदान निदेशक	1	2	मुख्य सचिव	1	—
कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	2	2	प्रधान सचिव (गृह)	1	2
उत्पाद शुल्क आयुक्त	1	2	प्रधान सचिव (वित्त)	1	2
मिजोरम सरकार के अधीन पद (कुल-20)			प्रधान सचिव (शहरी विकास)	1	2
मुख्य सचिव	1	—	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1	2
आयुक्त/सचिव (विकास)	1	2	आयुक्त और सचिव (विकास)	1	2
आयुक्त/सचिव (वित्त)	1	2	आयुक्त और सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./एल. एण्ड बी./एल.एस.जी.)	1	2
आयुक्त/सचिव (राजस्व)	1	2	आयुक्त और सचिव (उद्योग)	1	2
आयुक्त/सचिव (गृह)	1	2	आयुक्त सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2	आयुक्त/सचिव (आयोजना और आधारभूत संरचना)	1	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2	सचिव (पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व और अकादमियां)	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2	सचिव (जल और विद्युत)	1	2
आपूर्ति और परिवहन निदेशक	1	2	सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा)	1	2
उद्योग निदेशक	1	2	आयुक्त (बिक्री कर)	1	2
उपायुक्त (जिले)	4	2	निदेशक, सतर्कता	1	2
सचिव	4	2	सदस्य, अपीलीय प्राधिकरण, बिक्री कर	1	2
संयुक्त सचिव (वित्त)	1	2	शिक्षा निदेशक	1	2
संयुक्त सचिव (राजनैतिक और सतर्कता)	1	2	प्रभागीय आयुक्त	1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार के अधीन पद (कुल-8)					
मुख्य सचिव	1	—			
आयुक्त-सह-सचिव (विकास)	1	2			
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2			
आयुक्त-सह-सचिव (जहाजरानी और परिवहन)	1	2			

1	2	3
आयुक्त (अपीलें)	1	2
उप राज्यपाल के सचिव	1	2
आयुक्त और सचिव (शिक्षा)	1	2
आयुक्त और सचिव (परिवहन)	1	2
उपायुक्त (जिले)	5	2
सचिव (सेवाएं)	1	2
निदेशक, प्रशिक्षण (यू.टी.सी.एस.)	1	2
निदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
आयुक्त (उत्पाद शुल्क और मनोरंजन)	1	2
अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)	1	2
अपर आयुक्त, बिक्री कर	2	2
निदेशक, कृषि विपणन	1	2
अपर सचिव (शिक्षा)	1	2
अपर सचिव (वित्त)	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2
लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद (कुल-1)		
कलेक्टर-सह-विकास आयुक्त	1	—
पांडिचेरी सरकार के अधीन पद (कुल-8)		
मुख्य सचिव	1	—
सचिव (आयोजना)-सह-विकास आयुक्त	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण)	1	2
सरकार के सचिव	3	2
रेजीडेंट आयुक्त	1	2
उप राज्यपाल के सचिव	1	2
वरिष्ठ ड्यूटी पद (पूरा संवर्ग)	132	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से		53
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से		33
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से		5
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से		22
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)		74
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)		171
कुल प्राधिकृत पद संख्या		245 "

[फा. सं. 11031/1/2000-अ.भा.से. II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. 3350 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। ए.जी.एम.यू. संवर्ग के संबंध में इन विनियमों में संशोधन, दिनांक 5-10-1974 की सं. सा.का.नि. 1065, दिनांक 21-1-1975 की सं. सा.का.नि. 92, 6-4-1976 की सं. सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 8-10-1977 की सं. सा.का.नि. 1323, दिनांक 28-10-1978 की 1280, 11-8-1979 की 1037, 8-9-1980 की 529(अ), 28-2-1981 की 229, 24-5-1983 की 446(अ), 17-11-1984 की 775(अ), 13-12-1986 की 1069, 26-3-1988 की 190, 28-12-1988 की 1224, 4-8-1990 की 479, 2-7-1994 की 309, 31-3-1995 की 319(अ), 31-12-1997 की सं. सा.का.नि. 739(अ) और दिनांक 9-10-2004 की 339 के द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rules (1) and (2) of Rule 4 and sub-rule (c) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "ARUNACHAL PRADESH-GOIA-MIZORAM-UNION TERRITORIES", and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

**“ARUNACHAL PRADESH-GOA-MIZORAM-UNION
TERRITORIES**

1. Senior Duty Posts under the Government of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories	132	
Name of Posts	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
Posts Under the Government of Arunachal Pradesh (Total 31)		
Chief Secretary	1	-
Principal Secretary-cum-Commissioner	1	2
Commissioner-cum-Secretary (PWD/RWD)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2
Divisional Commissioner (East)	1	2
Divisional Commissioner (West)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Home)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Education)	1	2
Secretary (Industries)	1	2
Secretary (Supply & Transport)	1	2
Secretary (General Administration)	1	2
Joint Secretary (Political)	1	2
Joint Secretary (P&D)	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretary to Governor	1	2
Registrar, Co-operative Societies	1	2
Director of Supply and Transport	1	2
Director of Civil Supplies	1	2
Deputy Commissioner (Districts)	13	2
Posts Under the Government of Goa (Total 13)		
Chief Secretary	1	-
Principal Secretary	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Education & Health)	1	2
Secretary to Governor	1	2

1	2	3
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretaries to Government	2	2
Commissioner (Sales Tax)	1	2
Director of Industries and Mines	1	2
Collector/DM	2	2
Commissioner of Excise	1	2
Posts under the Government of Mizoram (Total 20)		
Chief Secretary	1	-
Commissioner/Secretary (Development)	1	2
Commissioner/Secretary (Finance)	1	2
Commissioner/Secretary (Revenue)	1	2
Commissioner/Secretary (Home)	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Registrar, Co-operative Societies	1	2
Director of Supply and Transport	1	2
Director of Industries	1	2
Deputy Commissioners (Districts)	4	2
Secretaries	4	2
Joint Secretary (Finance)	1	2
Joint Secretary (Pol. & Vig.)	1	2
Posts under the Government of Andaman & Nicobar Islands (Total 8)		
Chief Secretary	1	-
Commissioner-cum-Secretary (Development)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Shipping and Transport)	1	2
Secretary to Lt. Governor	1	2
Deputy Commissioner (Districts)	2	2
Deputy Development Commissioner/ Special Secretary	1	2
Posts under the Government of Chandigarh (Total 5)		
Advisor to the Administrator, Chandigarh	1	-
Secretary (Home)	1	2
Secretary (Finance)	1	2

1	2	3
Deputy Commissioner (Districts)	1	2
Joint Secretary (Finance)	1	2
Posts under the Government of Daman & Diu/Dadra & Nagar Haveli Administration (Total 5)		
Development Commissioner	1	-
Finance Secretary	1	2
Collector/Distt. Magistrate (Daman, Diu/Dadra & Nagar Haveli)	3	2
Posts under the Government of NCT of Delhi (Total 41)		
Chief Secretary	1	-
Principal Secretary (Home)	1	2
Principal Secretary (Finance)	1	2
Principal Secretary (UD)	1	2
Principal Secretary (Health & F.W.)	1	2
Commissioner & Secretary (Development)	1	2
Commissioner & Secretary (PWD/L&BI/LSG)	1	2
Commissioner & Secretary (Industries)	1	2
Commissioner Secretary (Food & Supply)	1	2
Commissioner Secretary (Planning and Infrastructure)	1	2
Secretary (Tourism, Culture, Archaeology and Academies)	1	2
Secretary (Water & Power)	1	2
Secretary (Environment and Forest and Non-conventional Energy)	1	2
Commissioner (Sales Tax)	1	2
Director, Vigilance	1	2
Member, Appellate Tribunal Sales Tax	1	2
Director of Education	1	2
Divisional Commissioner	1	2
Commissioner (Appeals)	1	2
Secretary to Lt. Governor	1	2
Commissioner & Secretary (Education)	1	2
Commissioner & Secretary (Transport)	1	2
Dy. Commissioner (Districts)	5	2
Secretary (Services)	1	2
Director of Training (UTCS)	1	2
Director of Social Welfare	1	2

1	2	3
Director of Trg. And Tech. Education	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2
Labour Commissioner	1	2
Commissioner (Excise and Ent.)	1	2
Addl. Director of Education (Admn.)	1	2
Addl. Commissioner, Sales Tax	2	2
Director, Agricultural Marketing	1	2
Additional Secretary (Education)	1	2
Additional Secretary (Finance)	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Posts under the Government of Lakshadweep Administration (Total 1)		
Collector-cum-Development Commissioner	1	-
Posts under the Government of Pondicherry (Total 8)		
Chief Secretary	1	-
Secretary (Planning) cum-Development Commissioner	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	1	2
Secretaries to Government	3	2
Resident Commissioner	1	2
Secretary to Lt. Governor	1	2
Senior Duty Posts (Cadre as a Whole) 132		
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	53	
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	33	
4. Training Reserve @ 3.5% of item 1 above	5	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	22	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	74	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	171	
Total Authorised Strength	245"	

[F. No. 11031/01/2000-AIS-II]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22-10-55. The Regulation in respect of AGMU Cadre were amended vide GSR Nos, 1065, dated 5-10-74, 92 dated 21-1-75 286E dated 6-4-76, 1323 dated 08-10-77, 1280 dated 28-10-78, 1037 dated 11-8-79, 529E dated

8-9-80, 229 dated 28-2-81, 446E dated 24-5-83, 775E dated 17-11-84, 1069 dated 13-12-86, 190 dated 26-3-88, 1224 dated 28-12-88, 479 dated 4-8-90, 309 dated 2-7-94, 319E dated 31-3-95, 739E dated 31-12-97 and 339 dated 9-10-04.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 77(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागालैण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “नागालैण्ड” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“नागालैण्ड

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	39	
पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
मुख्य सचिव	1	—
अतिरिक्त मुख्य सचिव	2	2
प्रधान सचिव	2	2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1	2
प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त	1	2
आयुक्त और सचिव	6	2
आयुक्त	1	2
निदेशक, ए.टी.आई.	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
आयुक्त, कर तथा उत्पाद शुल्क	1	2
आवासीय आयुक्त	1	2
सचिव	6	2
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	3	2

1	2	3
उपायुक्त	11	2
अपर उपायुक्त	1	2
कुल योग	39	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	15	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	09	
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	01	
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	06	
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	21	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5+6)	49	

कुल प्राधिकृत पद संख्या	70”	
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, वस्त्र	1	2
निर्यात संवर्धन एवं विपणन निदेशक	1	2
निदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, विशेष परियोजनाएं	1	2
कुल योग	110	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से		44
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से		27
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से		3
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से		18

1	2	3
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं		61
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)		141
कुल प्राधिकृत पद संख्या		202 "

[फा. सं. 11031/3/2007-अ.भा.से. (ii)क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् बिहार संवर्ग के संबंध में, ये विनियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों के तहत संशोधन किए गए :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	329(अ)	11-05-1976
2.	524(अ)	08-09-1980
3.	957	04-12-1982
4.	399	21-04-1984
5.	296	16-04-1988
6.	108	07-03-1992
7.	319(अ)	31-03-1995
8.	276	05-07-1997
9.	739(अ)	31-12-1997
10.	222	09-07-2005

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2008.

- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for

the heading "Nagaland" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely :—

"NAGALAND"

1. Senior Duty Posts under the State Government		39
Name of the Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
Chief Secretary	1	—
Additional Chief Secretary	2	2
Principal Secretary	2	2
Principal Secretary to Chief Minister	1	2
Principal Secretary and Financial Commissioner	1	2
Commissioner and Secretary	6	2
Commissioner	1	2
Director, ATI	1	2
Secretary to Governor	1	2
Commissioner, Taxes and Excise	1	2
Resident Commissioner	1	2
Secretary	6	2
Addl./Joint/Deputy Secretary to Government	3	2
Deputy Commissioner	11	2
Addl. Deputy Commissioner	1	2
Total	39	
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above		15
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above		9
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above		1
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above		6
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above		21
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5—6)		49
Total Authorised Strength		70"

[F. No. 11031/3/2002-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended

in respect of the Nagaland Cadre *vide* the following
G.S.R. Nos. and dates :

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	329(E)	11-05-1976
2.	524(E)	08-09-1980
3.	957	04-12-1982
4.	399	21-04-1984
5.	296	16-04-1988
6.	108	07-03-1992
7.	319(E)	31-03-1995
8.	276	05-07-1997
9.	739(E)	31-12-1997
10.	222	09-07-2005

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 78(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, झारखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "झारखण्ड" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"झारखण्ड"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	77	
पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
मुख्य सचिव	1	—
विकास आयुक्त	1	2
आयुक्त और सचिव/प्रधान सचिव	6	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2

1	2	3
मुख्य चुनाव आयुक्त	1	2
प्रभागीय आयुक्त	4	2
सरकार के सचिव	10	2
विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव	19	2
जनजातीय विकास आयुक्त	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
महानिरीक्षक, कारागार	1	2
महानिरीक्षक, पंजीयन	1	2
राज्य परिवहन आयुक्त	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1	2
उपायुक्त/अपर उपायुक्त	22	2
बंदोबस्त अधिकारी/डीडीसी	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
निदेशक, पंचायती राज	1	2
निदेशक, भूमि अधिग्रहण तथा भूमि रिकार्ड	1	2
कुल योग	77	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से		31
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से		19
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से		03
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से		13
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)		43
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)		100
कुल प्राधिकृत पद संख्या		143 "

[फा. सं. 11031/7/2003-अ.भा.से. (ii)-क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। तत्पश्चात झारखण्ड संवर्ग के संबंध में, इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए :—

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	808(अ)	21-10-2000
2.	809(अ)	21-10-2000
3.	443	03-12-2004

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2008.

- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Jharkhand" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted namely:

"JHARKHAND"

1 Senior Duty Post under The State Government	77	
Name of Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
Chief Secretary	1	-
Development Commissioner	1	2
Commissioner & Secretary/Principal Secretary	6	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Divisional Commissioner	4	2
Secretary to Government	10	2
Spl./ Addl./ Jt./ Dy. Secretary	19	2
Tribal Development Commissioner	1	2
Director, Industries	1	2
I.G. Prison	1	2
I.G. Registration	1	2
State Transport Commissioner	1	2

1	2	3
Labour Commissioner	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2
Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner	22	2
Settlement Officer/ DDC	1	2
Commissioner, Commercial Taxes	1	2
Director, Panchayati Raj	1	2
Director, Land Acquisition & Land records	1	2
Total	77	
2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	31	
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	19	
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	13	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	43	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	100	
Total Authorised Strength	143"	

[F.No. 11031/7/2003-AIS II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Jharkhand Cadre vide the following GSR Nos. and dates:

Sl. No.	GSR	Date
1.	808E	21-10-2000
2.	809E	21-10-2000
3.	443	03-12-2004

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 79(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2005 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “सिक्किम” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“सिक्किम

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	27	
पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
अपर मुख्य सचिव	1	2
प्रधान सचिव	4	2
आयुक्त-सह-सचिव		27
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	11	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	07	
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 को 3.5 प्रतिशत की दर से	01	
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	04	
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	15	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	35	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	50”	

[फा. सं. 11031/6/2004-अ.भा.से. (ii)क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात सिक्किम संवर्ग के संबंध में, इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा किए गए :—

क्र.सं.	सा.का.नि.	दिनांक
1	2	3
1.	404(अ)	16-06-1976
2.	419	08-05-1982
3.	123	15-02-1986
4.	190	26-03-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-05-1993
7.	319(अ)	31-03-1995
8.	739(अ)	31-12-1997
9.	367(अ)	19-05-1999
10.	224	09-07-2005

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Sikkim, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading “Sikkim” and the entries occurring thereunder the following shall be substituted namely:

“SIKKIM

1 Senior Duty Posts under the State Government	27	
Name of Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
Chief Secretary to the Government	1	—
Additional Chief Secretary	1	2
Principal Secretary	4	2
Commissioner-cum-Secretary	8	2

1	2	3
Secretary to Govt./Joint Secretaries/ Deputy Secretaries	9	2
District Magistrate and Collector	4	2
Total	27	
2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	11	
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	7	
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	1	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	4	
6. Posts to be filled by promotion (not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above)	15	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	35	
Total Authorised Strength	50"	

[F.No. 11031/6/2004-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Sikkim Cadre vide the following GSR Nos. and dates:

Sl. No.	GSR No	Date
1.	404E	16-06-1976
2.	419	08-05-1982
3.	123	15-02-1986
4.	190	26-03-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-05-1993
7.	319E	31-03-1995
8.	739E	31-12-1997
9.	367E	19-05-1999
10.	224	09-07-2005

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 80(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उड़ीसा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उड़ीसा"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	110	
	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
सरकार के मुख्य सचिव तथा मुख्य विकास आयुक्त	1	—
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1	2
मुख्य प्रशासक (के.बी.के.)	1	2
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1	2
विशेष राहत आयुक्त	1	2
कृषि उत्पादन आयुक्त	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	4	2
मुख्य चुनाव अधिकारी	1	2
अपर विकास आयुक्त तथा सरकार के सचिव, आयोजना और समन्वय विभाग	1	2
आयुक्त, जनजाति और हरिजन कल्याण	1	2
महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वय, गोपाबंधु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर	1	2
राजस्व, प्रभागीय आयुक्त	3	2
आयुक्त, भूमि सुधार	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
आयुक्त, भूमि रिकार्ड और बंदोबस्त	1	2
परिवहन आयुक्त	1	2
राज्यपाल के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के आयुक्त-सह-सचिव	1	2
आयुक्त, चकबंदी	1	2
सरकार के आयुक्त-सह-सचिव	14	2
सरकार के विशेष सचिव (जी.ए.डी)	1	2
सरकार के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	16	2

1	2	3
सचिव, राजस्व बोर्ड	1	2
मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	30	2
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-1/बंदोबस्त अधिकारी/उप निदेशक, चकबंदी/महाप्रबंधक, डीआईजी/परियोजना, प्रशासन, आई.टी.डी.ए./परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	11	2
पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1	2
निदेशक, हरिजन एवं जनजाति कल्याण	1	2
निदेशक, पंचायतीराज	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
निदेशक, रोजगार	1	2
पंजीयन, महानिरीक्षक	1	2
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, वस्त्र	1	2
निर्यात संवर्धन एवं विपणन निदेशक	1	2
निदेशक, व समाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, विशेष परियोजनाएं	1	2
कुल	110	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	44	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	27	
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	3	
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्तमद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	18	
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	61	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	141	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	202	

[फा. सं. 11031/2/1997-अ.भा.से. II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 22-10-1955 की का.नि.आ. संख्या 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् विनियमों में संशोधन सिविकिम सर्वे में संबंध में, निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों के अंतर्गत किए गए :

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक	क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	386	22-3-75	9.	438	03-10-92
2.	574(अ)	08-12-78	10.	85	13-02-93
3.	619	28-04-79	11.	294	12-06-93
4.	770	09-06-79	12.	469	25-09-93
5.	598	27-06-81	13.	319(अ)	31-03-95
6.	776	18-09-82	14.	739(अ)	31-12-97
7.	470	20-06-87	15.	477(अ)	29-06-1999
8.	659	23-11-91	16.	246	22-06-2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause @ of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Orissa, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Orissa" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:

"ORISSA

1. Senior Duty Posts under the State Govt.		110
Name of the Post	No. of posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
Chief Secretary to the Government and Chief Development Commissioner	1	—
Member, Board of Revenue	1	2
Chief Administrator (KBK)	1	2
Additional Chief Secretary to Government	1	2
Special Relief Commissioner	1	2
Agriculture Production Commissioner	1	2
Principal Secretary to Government	4	2

1	2	3	1	2	3																																																						
Chief Electoral Officer	1	2	Excise Commissioner	1	2																																																						
Additional Development Commissioner and Secretary to Government, Planning and Coordination Department	1	2	Labour Commissioner	1	—																																																						
Commissioner, Tribal and Harijan Welfare	1	2	Director, Tourism	1	2																																																						
Director General, Training Coordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	1	2	Director, Textiles	1	2																																																						
Revenue Divisional Commissioner	3	2	Director of Export Promotion & Marketing	1	2																																																						
Commissioner, Land Reforms	1	2	Director, Social Welfare	1	2																																																						
Commissioner, Commercial Taxes	1	2	Director, Special Projects	1	2																																																						
Commissioner, Land Records and Settlement	1	2	TOTAL	110																																																							
Transport Commissioner	1	2	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	44																																																							
Commissioner-cum-Secretary to Governor	1	2	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	27																																																							
Commissioner-cum-Secretary to Chief Minister	1	2	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3																																																							
Commissioner, Consolidation	1	2	5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	18																																																							
Commissioner-cum-Secretary to Government	14	2	6. Posts to be filled by promotion (not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above)	61																																																							
Special Secretary to Government (G.A.D)	1	2	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	141																																																							
Secretary/Additional Secretary/ Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	16	2	Total Authorised Strength	202"																																																							
Secretary, Board of Revenue	1	2	[F. No. 11031/2/1997-AIS-A]																																																								
Magistrate and Collector	30	2	CHAITANYA PRASAD, Director (Services)																																																								
Additional District Magistrate/Sub-Collector Grade-I/Settlement Officer/Deputy Director, Consolidation/General Manager, DIG/Project, Administrator, ITDA/Project Officer, DRDA	11	2	Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Sikkim Cadre vide the following G.S.R. Nos. and dates:																																																								
Registrar, Cooperative Societies	1	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S1.No.</th><th>G.S.R.No.</th><th>Date</th><th>S1.No.</th><th>G.S.R.No.</th><th>Date</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>386</td><td>22-3-75</td><td>9.</td><td>438</td><td>03-10-92</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>574(E)</td><td>08-12-78</td><td>10.</td><td>85</td><td>13-02-93</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>619</td><td>28-04-79</td><td>11.</td><td>294</td><td>12-06-93</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>770</td><td>09-06-79</td><td>12.</td><td>469</td><td>25-09-93</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>598</td><td>27-06-81</td><td>13.</td><td>319(E)</td><td>31-03-95</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>776</td><td>18-09-82</td><td>14.</td><td>739(E)</td><td>31-12-97</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>470</td><td>20-06-87</td><td>15.</td><td>477(E)</td><td>29-06-99</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>659</td><td>23-11-91</td><td>16.</td><td>246</td><td>22-06-2000</td></tr> </tbody> </table>			S1.No.	G.S.R.No.	Date	S1.No.	G.S.R.No.	Date	1.	386	22-3-75	9.	438	03-10-92	2.	574(E)	08-12-78	10.	85	13-02-93	3.	619	28-04-79	11.	294	12-06-93	4.	770	09-06-79	12.	469	25-09-93	5.	598	27-06-81	13.	319(E)	31-03-95	6.	776	18-09-82	14.	739(E)	31-12-97	7.	470	20-06-87	15.	477(E)	29-06-99	8.	659	23-11-91	16.	246	22-06-2000
S1.No.	G.S.R.No.	Date	S1.No.	G.S.R.No.	Date																																																						
1.	386	22-3-75	9.	438	03-10-92																																																						
2.	574(E)	08-12-78	10.	85	13-02-93																																																						
3.	619	28-04-79	11.	294	12-06-93																																																						
4.	770	09-06-79	12.	469	25-09-93																																																						
5.	598	27-06-81	13.	319(E)	31-03-95																																																						
6.	776	18-09-82	14.	739(E)	31-12-97																																																						
7.	470	20-06-87	15.	477(E)	29-06-99																																																						
8.	659	23-11-91	16.	246	22-06-2000																																																						
Inspector General of Registration	1	2																																																									

655 GI/08-4

